Minda Industries Ltd.



Ref. No. Z-IV/R-39/D-2/NSE/207 & 174

Date: 30/09/2020

National Stock Exchange of India Ltd.	BSE Ltd.
Listing Deptt., Exchange Plaza,	Regd. Office: Floor - 25,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),	Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Mumbai - 400 051	Dalal Street, Mumbai-400 001.
NSE Scrip: MINDAIND	BSE Scrip: 532539

Sub: - Submission of newspaper clippings

Ref: - Composite Scheme of Amalgamation amongst Harita Limited, Harita Venu Private Limited, Harita Cheema Private Limited, Harita Financial Services Limited, Harita Seating Systems Limited (transferor companies) with Minda Industries Limited ("Transferee Company") and their respective shareholders and creditors

Dear Sirs,

Enclosed please find the **newspaper clippings** regarding "Advertisement of Petition" published in Business Standard (English) newspaper on 29 September, 2020 and Jansatta (Hindi) newspaper on 30 September, 2020 in relation to the captioned subject matter.

Delhi

This is for your information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Minda Industries Ltd.

Tarun Kumar Srivastava

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above.

विश्व के सौ प्रभावशाली लोगों में शामिल शाहीनबाग की विल्किस दादी मंगलवार

को राजधानी में एक कार्यक्रम में शिरकत करती हुई। फोटो : अरुष चोपड़ा

दोषियों को हो फांसी: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवात ने मंग्लवार को हाथरस की घटना के बाद दोषियों को

फांसी दिए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि हाथरस की पीड़िता की मौत पूरे

समाज, देश और सभी सरकारों के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है कि

इतनी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और हम अपनी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। उन्होंने

दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की ओर से समाज

कल्याण मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने एक करोड़ मुआवजे और पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी रावाल किया कि दलित की बेटी, देश की बेटी नहीं है ?

नई दिल्ली तापथान

न्यनतम 24.0 डि.से.

अधिकतम-36.0 डि.से.

सर्वोदयः 6:14 सर्यास्त- 18:09

जनसत्ता, नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2020

हाथरस में दरिदगी का शिकार हुई पीड़िता की मौत के बाद

अस्पताल में राजनीतिक दलों का हंग

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 29 सेतंबर।

उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिदगी का शिकार हुई पीड़िता ने राजधानी के सफदरजंग अस्पताल में मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पीड़िता की मौत के बाद दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर, आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक और नेता के अलावा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में ही हंगामा करना शुरू कर दिया। साथ ही दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने भी अस्पताल में पहुंचकर न्याय की मांग को लेकर हंगामा खड़ा किया। इस कारण अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। देर रात चंद्रशेखर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मौके पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार भी पहुंच गए।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल से बहर जाकर विरोध प्रदर्शन करने का कहा, लेकिन जब नेता और कार्यकर्ता नहीं माने तव हल्का बल प्रयोग किया गया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सफदरजंग आइसीय और अन्य विभाग में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं। ऐसे में शोर-शराबा की वजह से परीजों को परेशानी नहीं हो। पुलिस पर आप

आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त ने धक्का- गई। न्याय की मांग को लेकर निकाला मुक्की का आरोप लगाया है। दिल्लो पुलिस का केडल मार्च : कांग्रेस के वरिष्ट नेता पीएल कहना है कि प्रदर्शन में पोड़िता के परिचार लोग शामिल नहीं थे।

भीम आमी प्रमुख उत्तर प्रदेश की सरकार और प्राप्त पर सवाल खड़े करते हुए, बाय की मांग को लेकर अस्पताल परिसर भें स्थित पार्किंग में धरने पर बैड गए। चंद्रशेखर ने कहा कि अज उत्तर प्रदेश में आम जन कर्तर्ड सरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। दलियों पर सरकार सितम ढा रही है। उनकी मांग हैं कि वारदात को अंजाम देने वालों को फांसी मिले।

बेटिया नहीं हैं उत्तर प्रदेश ने सुरक्षित : अमृता धवन दिल्ली महिला कांग्रेस की

अध्यक्ष अमृता धवन हाथरस 🕏 मामले को लेकर अपने पार्टी के वरिष्ट नेना पीएल पुनिया के साध राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रहा थी। पर दिल्ली पुलिस ने अमृत धवन समेत 36 नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और सभी को संसद मार्ग थाने लंकर

राष्ट्रीय कम्पनी विधि प्राधिकरण, कोर्ट नं. VI, नई दिल्ली के समक्ष

पुनिया, किरण वालिया और भीम आमी के

हरेता लिमिटेड, हरिता येणु प्राईयेट लिमिटेड, हरिता चीमा प्राईयेट लिमिटेड, हरिता फाइनॉसियल सर्विसेस लिमिटेड, हरिता सीटिंग्स सर्विसेस लिमिटेड का मिण्डा इंडर्स्ट्राज लिमिटेड तथा उसके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडीटरों के साथ समामेलन की योजना के मामले में

मिण्डा इंडरट्रीज लिमिटेड (CIN: L74899DL1992PLC050333), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय बी 64/1, वजीरपुर इंडरिंट्रयत एरिया, नई दिल्ली 110052 में है

.....आवेदक कम्पनी/अंतरिती कम्पनी

याचिका का विज्ञापन

प्रईवेट लिमिटेड, हरिता चीमा प्राईवेट लिमिटेड, हरिता फाइनांसियत सर्विसेस लिमिटेड, हरिता सींटिंग्स सर्विसंस लिमिटेड के समामेलन की योजना पर राष्ट्रीय कम्पनी विधि प्राधिकरण, कोर्ट नं. VI, नई दिल्ली की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत एक याचिका मननीय राप्ट्रीय कम्पनी विधि प्राधिकरण, कोर्ट नं. VI, नई दिल्ली के समक्ष यान्किकर्त कम्पनी द्वारा प्रस्नुत किया गया था तथा उसे 22 जनवरी, 2020 को स्वीकृत किया गया तथा अब, राष्ट्रीय कम्मनी विधि प्राधिकरण कोर्ट नं. VI, नई दिल्ली के समक्ष 16 नवम्बर, 2020 को सुनवाई निर्धारित की गई है। उक्त आवेदन का समर्थन अथवा विरोध करने के लिये इच्छक कोई भी व्यक्ति अपने नाम एवं पते के साथ रवयं अथवा अपने अधिवक्ता द्वारा हरताक्षरित अपने आशय की सूचना आवेदक कम्पनी के अधिवक्ता के पास इस तरह से भेजें ताकि वह आवेदन की सुनवाई के लिये निर्धारित तिथि सं कम से कम दो दिन पूर्व याचिकाकर्ता कम्पनी के अधिवक्ता के पास पहुंच जाये। यदि कथित व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहते हों तो उस सृचना के साथ विरोध के कारणों अथवा एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें। सीएए-17 (एनडी)/2020 में कम्पनी की यानिका की एक प्रति उसके लिये निर्धारित शुल्कों के भुगतान पर उसे प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति की अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

श्री हीरक मुखंपाघ्याय

र्मेक्स टबर्स, 7वाँ एवं 8वाँ तल, सेक्टर 16 बी,

नोएडा, गौतम बुध नगर-201301 ई-मेलः hirak.mukhopadhyay@khaitunco.com

कम्पनी याचिका सं. सीएए-17 (एनडी)/2020

समर्थकों ने सफदरजंग अरमताल के वाहर रात

को कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान रिंग रोड पर

जाम की स्थिति भी बन गई

मिण्डा इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा उसके संबंधित शेयरधारकों एवं क्रेडीटरों के साथ हरिता लिमिटेड, हरिता वैण

आवेदक कम्पनी के सलाहकार

स्थानः दिल्ली तिथि: 28 सितम्बर, 2020

केंद्र सरकार की एजंसियों पर 6811 करोड़ का बकायाः जल बोर्ड

अपराधियों को कानून का

खौफ नहीं : कांग्रेस

नई दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस का कहना है कि उत्तर

प्रदेश में अपराधियों के मन में कानून व्यवस्था का कोई

खौफ नहीं है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार

ने मंगलवार को कहा कि हाथरस में दिलत बेटो की न

अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। (जसं)

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 29 सितंबर।

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 29 सितंबर।

केंद्र सरकार के अधीन एजेंनियां भारतीय रेलवे, सीपीडब्लूडी दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और नगर निगम (उत्तर, दक्षिण और पूर्व) पर जल बोर्ड का करीब 6811 करोड़ रुपए वकाया है। मंगलवार को जल बोर्ड उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने बताया कि इन सात सरकारी एजंसियों के कई बार नोटिस और औपचारिक अनुरोध जल बोर्ड की ओर से किया जा चुका है। इसके वावजूद इन एजंसियों ने लंबे समय से भुगतान नहीं किया है। उन्होंने बताया कि सरकारी विभाग जो केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय रूप से अधीन हैं और तीनो निगम अपने बकाया भुगतान में देरी कर रहे हैं। सभी विभागों में से सबसे अधिक वकाया भारतीय रेल का है, जो लगभग 3,283 करोड़ रुपए है जिसका पूरा प्रबंधन केंद्र नरकार द्वारा किया जाता है जबिक दूसरा सबसे अधिक बकाया उत्तर दिल्ली नगर निगम पर है, जो करीब 2.466 करोड रुपए हैं।

डीडीए ने एफएआर 300 तक करने की मंजूरी दी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 29 सितंबर।

झुग्गी -झोपड़ी वालों को अपना घर देने के लिए मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने जमीन का फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) बढ़ाने की मंजूरी दी है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता वाली बोर्ड बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। निर्माण के लिए एफएआर को 300 तक किए जाने की स्वीकृति दी है। बैठक में विधायक सोमनाथ भारती, विजेंद्र गुप्ता, ओपी शर्मा व दिलीप पांडेय भी उपस्थित थे। जमीन का आकार कोई भी हो। उस पर 300 एफएआर की मंजुरी होगी। इससे अधिक आवास निर्माण किए जा सकेंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था लागू होगी।

प्रेमिका और ससुर को गोली मारने का आरोपी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार


जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 29 सितंबर।

दिल्ली के अलीपर में प्रेमिका को गोली मारने और रोहतक में ससुर की हत्या के आरोपित दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर संदीप दहिया को रोहिणी से मंगलवार सुबह 11 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। दहिया को उत्तरी जिला के त्येशल ज्टाफ, साइबर सेल और लाहौरी गेंट पुलिस की संयुक्त टीम ने रोहिणी सेक्टर-तीन से गिरफ्तार किया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार और कार भी बरामद कर ली गई है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

ट्रैक्टर जलाने के मामले में पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष समेत चार गिरफ्तार

नई दिल्ली, 29 सितंबर

नई दिल्ली जिला पुलिस ने इंडिया गेट के पास ट्रॅंक्टर फूंकने के मामले में पंजाब यथ कांग्रेस के अध्यक्ष विरंद्र सिंह ढिल्लों समेत चार और कार्यकर्ताओं को मंगलवार को निरफ्तार कर किया गया। ढिल्लों के नेतृत्व में ही कार्यकर्ताओं ने ट्रॅक्टर मे आग लगा दी थी।



ये दूसरा निर्भया कांड, जल्द फांसी मिले : विहिप नई दिल्ली। हाथरस मामले में मंगलवार को

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई मौत को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने दूसरा निर्भया कांड करार दिया है। पीड़िता की मौत के बाद विहिप के सुरक्षा हो सकी और न ही सरकार की ओर से बेटी के अध्यक्ष डॉ आलोक कुमार ने कहा ये दूसरा निर्भया इलाज की उचित व्यवस्था तक ऋतें मुद्रैत्य करवा पाई और कोड है। सभी दोषियों को तत्काल फांसी दी जानी अंत में प्रदेश की दलित बेटी ने दिल्ली स्थित सफदरजंग चाहिए। दोषियों पर कार्रवाई के लिए विहिप लगातार आवाज उठाएगी।

पंजाब नैशनल बेंक 🔘

punjab national bank

प्रकारणम् प्रमायः कॉपॉरेट कार्यालयः प्लॉट क. 4. सेक्टर 10. द्वारकाः नई दिल्ली-\$10075 शुद्धिपत्र

(पंजाब नैशनल बैंक में 636 तकनीकी अधिकरियों की मर्ती के सबय में हमारी अधिसूचनः दिनाब 07.39.2020 का आणिक संशोधन)

उबंचक (जोखिम) (पोस्ट कोंब 01] और वरिष्ठ प्रबंधक (जोखिम) [पोस्ट कोंड 10] के पर्दी के लिए पात्रता मानदंड को संशोधित किया गया है और एफआरएम/पीज्डरएम/ ब्रिटीआईआएएन/सीए/आईसीडस्पयुर्/सीएफ्ए में न्यून्तम 60% कुल अंक प्राप्त करने संबंधी मानदंब अब लागू नहीं होगा।

समी विज्ञांपित पर्वों के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 06.10.2020 तक ब द्रा दी गई है।

महाप्रबन्धक (एथआरएमडी)

श्री सुनील कुमार चौधरी अध्यक्ष एवं प्रवेश निदेशक हारा 44वी वार्षिक आम बैठक में दिए गए संमाषण का सार संक्षेप

क्रंपनी की 44वा वार्षिक आम बैठक में निदशक मंडल की ओर से आप सभी का स्वागत करते हुए नुझ अत्यंत प्रसन्नता है। रही है।

मुझे गह कहते हुए गांव हा रहा है कि इच्कान सत्तत विकास के पथ पर अपवार है और भारत में जागा औरति से कही अधिक करां-निष्पादन कारी रखें हुए है। 1985 के बाद से हमन शक्तिय से एक विनिध बुनियादी बाया संगठन बनने को दिशा में स्वयं किया हे जो कि संबंध और भोगोलिक कररेज दोने के सदर्ग में है। हम निर्माण में मिर्माण और बुलियादी दाया गंदाकों में सदुने महान रायत में कराने में जारह पर निर्माल सेकर आद हैं। हम दर्श में जूत नीह पर कहे हैं जिसने दुनिया भार व बुनिहीं भी खेरेंचणनकां की कार्योदिया करने में सहराष्ट्रण सार कर करने र सिन्त हैं। उसने तक हमने दुनिया भार क 25 देशा प 128 है उनिक गरियाजनाए और अपना में किए हैं। उसने तक हमने दुनिया भर क 25 देशा प 128 है उनिक गरियाजनाए जो पारत में अठि ते अग्रित भी स्टेंक्टिनियान संध्यानक को हैं। सुराम के इंग्लिनियान में अपना में समुसार इंग्लिनियान में मिलाई देश-इम्प्लियोज करना में समुदार के समुसार इंग्लिनियान संध्यान करने हैं। सुराम साम खंडा एक समान प्राच्या हमाने खंडा स्थान स लम्मात्र भारतीय सार्गजनिक क्षत्र उपक्रम है।

हगारा प्रवालन कार्यनिष्यादन और सपलावेग्या

विताय वर्ष 2020 के दौरान हमारे कुल राजस्व में रेलवे संवटर का 80 98% को योगदान रहा है। हमात प्रधामिक फोकस और ताकत रलव तंवटर म निरंतर गहरा जाड जमान में निहेज हैं। हासांकि हम अपन राजमार्ग व्यवसाया के निर्म्हण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं मुल राजस्व में इसकी हिस्संदारी बदकर निग्नल वर्ष की 1256% और कुल राजस्व में इसका १६९० का बर्चन । ही हिस्सावारी के मुकायले लगभग 18.32% हो गई तथा कुल राजस्व की किस्सावारी के मुकायले लगभग 18.32% हो गई तथा कुल राजस्व सं विद्यात निर्माण और अन्य कार्मा की हिस्सेदारी लगभग 0.70% है।

पूर्ण विस्तृत भूदाता सुर्दिषत करते के निष्ण प्रयासता है।

तिर्तेश वर्ष 2020 में टीरार्ग, हमने परिवहन और नागरिक उद्धमन निर्मालय भीतिक सरक्षिय के अगिन भीतिक रहने हैं। एसके में तिर्वेश भीतिक सरक्षिय के अगिन भीतिक रहने हैं। एसके में तहने हैं। इस में मान पर महाराई से स्वा में तहने हैं। इस हैं यह है वह है को जीतिक में महाने भीतिक सरक्षिय है। यह है को जीतिक में महाने भीतिक सरक्षिय है। इस है को जीतिक सरक्षिय के स्व मान के

गुड़ा यह प्रीक्षण करते हुए प्रसन्तत है कि हमने हाल में सार्वजीतक की विविध अनस्तरण के जीवन की गुणवता सुगारन के पनि निहंछीत क्षेत्र उपक्रमों के बीच प्रतिस्थात्मक बीजी के आधार पर रत्न नेवालय, होती है। भारत सरकार से दो काम हासिल किए हैं। इनाह से एक 1900 करोड़ काणीबेट शासन स कं बनुकानित पुरुष विक्रिया नार्यों पर 2251 रूट किसी मीटर (जारकेषुय) पण्डेल जिलुक्तीकरन नार्य जीर दूसरा 440 कराड रू रां भवि बाहुत कं ह तीव ओवर किसी वहां कार्य है।

विलीय वर्ष 2020 में हमारा प्रदर्शन

🏰 हमारा लक्ष्य अपने लाभ मार्जिन को सुदृढ़ बनाने एवं अपनी नकदी रिथति को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ सेक्टरों एवं भौगोलिक क्षेत्रों में विविधता स्थापित करना है, जिससे हमारे परिचालनात्मक निष्पादन में योगदान प्राप्त हो सकेगा। 🎔

की है जा कि पूर्ववारी विभाग वर्ष में र 4 680 व रोड़ के मुकायल अब का है जा कि पुकर्ता नामा देखें में तर 2850 बरात के पुकरान अब तक की संगोधिक है , वर्ष का दौरान हमार कारोबर चैतीय जो 2019 में १ 4415 करह के पुकाबत 18 प्रतिशत की नृद्धि में साथ १ 5202 करोड रहे हैं। हैंगार चूल आप की करीब 9560% इनारे प्रयोजन मिलिंगिमों से दर्ज किया गधा है। कुल आप में में में 875% (दे 476 करोड़) अतर्राष्ट्रीय गरियोजनाक्ष्य के जीरेए होरिया किया गया है।

समेकित आधार पर हमने पिछले वितीय वर्ग के दौरान र 4 990 करोड़ क मुकाबले कुल र 5 540 करोड़ आब देते 🏲 हैं आप उन्ता वितीय में. पिछल वित्तींग गर्थ में १ 456 कराङ 🍍 मुजाबल र 485 कराङ का समेकित। नियस लाभ अधित किया।

वितीय वर्ष 2020 के लिए बोर्ड न वितीय वर्ष के लिए लाम में से विभाग वर्ष क्षेत्रक के जीना मुक्त पर धाने इनितनी शेवर र 2001-र श्रिक्त करेबा की गाँव अधिम तमात्र की अनुसार्ग की है इसके साथ ही विभाग को सद्देश के लिए में मूर्त तीवार 2000 करीड लिम्मानित (अधीत र अध्यत वर्णक की घटना स्वाहत श्रीव्य कुछी पर 20750%) होगा जिसमें र 12650 करीड का अंतरिम लामांश सामिल है। 31 मार्च 2020 की कृत ताभाश कर उपरात लाम का 4560% और निवल मूल्य का 5.37% बंधता है।

इसके अतिरिक्तः में यह उल्लेख करना पाहुमा कि कैमानिक लेखा परेक्षकों ने लेखा परेक्षकों की रिपोर में (कुछ सुझारी की घोडकर) कोई वार्त का अनुमित्तामा नहीं दी ही और गरता की निवार के और महालेखा परेक्षक (विशिद्धकार्य) ने भी विरोध को 2020 के प्लेख कोई टिप्पणिया जारों नहीं की है की

साध्यक और समुक्त उद्यम कपनिया

31 मार्च 2020 की इरकान है। पूर्व स्वामित्व वार्ज, पान सहयक कपनिया है इनम से बाद गाना राज्य में परिवादन्ताओं है निषादन क लिए सुजित विद्याग उद्देश्य वाहन (एसवारीच) है: इस्कॉल की जी सबुबत तक्षम (जेवी) क्रणनेवा में 50 जीवस्त की शयरवारिया अर पाठ संयुक्त तक्षम कथनिया में 26 प्रतिशत की शयरवारित। है जिनकर नैयकन व्यत सक्तासम्ब इसस्थर हीर कार्यमा राज्यों न क्रांप्रसा सपर्य पविकातनाओं ५ सिए किया भग्न है। गंधी सहवचक और सबुध उत्ताम कमानेकों क विवरण स्विहरूलों यह रिनोर्ट में उत्पादक कराए गए है।


ब्रामन क तहत कपना की रेटिन जो 2017 18 की माने जनक अला है। कंपना को को 2019 20 के निया भी संक्षाप्त रहिए हासिन होने

प्रतिक्रिया एवं उत्तरदामित

म विद्युत, निर्माण और उस्न कला। वह हिस्सवर्ग लगरम 0.70% है।

अंदिर दुक, 3.1 पार्च, 2020 वर्क अंदिर दुक, 3.1 पार्च, 2020 के अंदिर दुक, 3.2 पार्च, 2020 के अ को माना और तमा अंतरों को अभिकत्ता करते के लिए परियोजनाओं की करना मानित है। इसकि हम महत्त्वाण बेर स्था के तत्ता करने के लिए परियोजनाओं की करना मानित है। इसकि हम महत्त्वाण विकास स्था के तत्ता करने के लिए प्रयासत है। अति निवंधा करने को लाग करने के लिए प्रयासत है। अति निवंधा करने को लाग करने के लिए प्रयासत है।

कपनी कार्पोर्ट शासन के किदासों का अरूरश कायान्वयन कर रही है। आपकी कपनी अपने प्रधालना के सभी पहलुआ में पारव्हींगा लगाबंदी और इंग्विसी का सर्वाधिक महत्व दुती हैं। आपका कवना मिलीय वर्ष 2020 में हमारा प्रवरीन स्वी (सुर्वाकरण उत्तरसायित एच प्रकट अफेक्र) वितायन 2015 करना पर हस्तायस विह है। इस्कान में रेस परियोजनाओं के संवासन की तर्म वितीय वर्ष 2020 के दौरान, हमने कुन र 5442 करोड़ की आय दर्ज अधिनियम 2013 और सीक उराम विभाग के कामीर शासन पेश्नियम विनिध्न के साथ मी सहगोग अनुका किया है सिनम उन



प्रकाशना का जालन कर रही है। संबी नियनों और कर्णोरट शासन पर आंक उराम जिनान के दिशानिदेशों के अधीन कार्जरेट शासन की राति की अनुवासना का एक प्रमाणपत्र निवंशकों की विपार का हिस्सा हमा है।

तीयर के देत समदन की और

हान उपन कर्मकारियां को अपनी सबसे मृह्यकान संपति के रूप ने ्राप्त करण वननावाच्या को अपनी स्वतंत्र मुख्यका स्मार्ग के विद्या न रामातार प्रधान कर ने हैं। हम एक सलग्य और नक्षान का वेदान के लिए र अवस्थानों संस्कृति के निर्माण और इस बनाए सहन के लिए प्रविद्धा है। हमार्ग प्रधान के बीच संयुक्त प्रतानों के जिए स्वतृत्व हैं। सुमुख अवहारी और सहयोगात्मक काम बारुही है। हम नए प्रतियादन सीमा क एका जन्म कार्यवन के निर्माण प्रसान प्रतान में कालाव पर्या है क सका ज्ञान ने कार्यवाल के निवार मिलाए स्टूर्म में जिलाह स्टूर्स है। को हनार नेपाटन में नजावार और विकास का संघालन कर सकते है। 21 मधा 2020 का हमारे भानव संस्कृतने की कुल संख्या 1389 है। नवनियुक्त क्रांनिका के कुल संख्या 64 है।

इस्रक राजाना हुन अपने कर्मधारियों के विकास और कारगर में प्रगति मुझे पूरा विश्वास है कि इरकान के कपनारियों के जीतन प्रभावता के प्रकार तहता है इस का काशवादियों के विकास और तहता है स्वापन काशवादियों के विकास कर विद्यापन का विश्वास हम व प्रियाण साम हम पति हो हम तह के प्रकार का कि अपना का का का कि स्वापन और राज्यवकता से के अलाव आपकी का विश्वास हम के 200 के दौरान विभिन्न हम हो है इस तब प्रथाना के लिए हमारा उपहरकान से के अलाव आपकी का विश्वास हमारा उपहरकान कि अलाव आपकी का विश्वास हमारा उपहरकान कि अलाव का विश्वास हमारा उपहरकान हमारा उपहरकान का विश्वास हमारा उपहरकान का विश्वास हमारा उपहरकान का विश्वास हमारा उपहरकान का विश्वास हमारा उपहरकान हमारा उपहरकान का विश्वास हमारा उपहरकान हमारा उपहरकान हमारा उपहार हमारा उपहरकान हमारा उपहरकान हमारा उपहार हमारा उपहर

परदर्शिंग घर जोर क साथ और कामज रहित कार्यालय की दिशा में मलिशिया के साथ एक शमझीता आपन हरवालाँहै । फिर्म गया है।

है। हम जिह्नाम है कि हमारी अनुभवी प्रकार दीम और बुहाह कारावल की सहाध्यान से हम भारत में और विदेशी बाजारी में उच्चे युगवात की अर्थकानमार प्रकारतापूर्वक सर्वातित कर सकते हैं। हम उत्पारा क्षेत्री ने विधिनता जाने और विदेशा से आईर बडाने की अपनी रणनीति की जारी रेश्वन का प्रधान करते हैं। हमारा लक्ष्य अपने स्वस्थ लाव अतर श्रेट सहज रास्त्रक की रिश्ति को आगे खड़ाना है जो हमार परिपास्त्र नर्दम में पुर्वे के कि सभी मार्गास्त्र कराता हमार्ग अपने अस्थित हैन्स के एवं विकास कराता हमार्ग कराता हमार्ग कराया है ना रखना प्रकारिया म उत्कृष्ट रेरिक ध्याहरणे स्ट प्रकार के बादा स्वतं है। इस्तर्भन ने अपनी भीजून और मंत्रिय स्न प्रकारकारकों के लिए साध्याम स्व नेस्ताल इन्येस्टरण इन्याहरकार कहें लिमहेंड (एमआई-आईएफ्ट्स) के साथ एक सन्दर्भात ज्ञापन पर हरसाक्षर किए है। सीर ऊर्ज़ा के दोत्र म अवसर सलायने होता पर हिस्सान करने के लिए एनआईआईएफएल और अयाना रीन्यूएवल कार बहुबुद्द लिमिट्ड (अयाना) के साथ की एक समझीता जापन पर क्लप्सर किए गई है। कवनी ने भारत और विदेशों में बदरगाहों। जहाज ्रता हुना सुरमा भट्टा स्ता जैस विदेशी होता में परस्पर लोगदीकर उनस्मामक अनस्स्री में सहस्रोम और समुख्त कायीनमादन के लिए नर्सन १३ ल्यूचा निर्मेदर एस एड हो। के सब्ब मी समझीता ज्ञापन पर हरताहर किए है। इस्कान ने रेस परियोजनाओं के सम्मानन के लिए

अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ गुणवत्ता सम्पन्न अवसंखना का निर्माण

दशों में जहां बीइएनएल और इस्कान के! व्यानरिक रहीं। आंद नीजदर्गा है. बीहएमएल हारा विनिर्मित रोलिंग स्टाब्ह की आपूर्ण और रखरखाव शामिल है।

रल भजातम्य नं भहत्वपूर्णं रल परियाजनाओं क लिए सार्वजनिक क्षेत्र त्रंपकम कारिया को अमरिक करन का निर्णय लिया है जो उच्च गूमकीमा कारी सरकारी परियाजनाएं गुरू करने क लिए और अद्यार प्राप्तन करनी है। इसक अस्ताव कारी स्थार सिंही विश्वन और क्षेत्र रत जैस्त सरकार की प्राथमिकता जानी परियाजनाओं में आर्थरिक अवसरकान जिलाम अस्तानों की तालाज कर रहे हैं। इस मार्वाय सरकार है उठनाएँ परियाजनाओं महत्वपूर्ण कर सहस्त मार्वाय क्रवराज्या विभाग अध्यापको स्थापको स्यापको स्थापको स्यापको स्थापको स्थापको स्थापको स्थापको स्थापको स्थापको स्थापको स्यापको स्थापको स्थापको स्थापको स्थापको स्थापको स्थापको स्थापको स्य

जनराष्ट्रीय मधी पर दरवीन सामलदेश और बीलका उन्हेरासा व अरारायाम भाग पर इरकान पामलां अर बालका रूपरामां पर प्रांतिक रहेगा ।
क्षिणी वाज परिवालनाओं पर बालदार तरका के भाग कर रहा है।
क्षांनी अक्षीकी देशी में भी रहत और राजनिंग परिवालनाओं के लिए
स्पत्तित होगा। इरकान ने एतिया। अर्काका आर राजित अमरिका में
रहत प्रवास का प्रांतिक परिवालनाओं के त्युका विकास के
लिए अवसर का प्रणा सलान ने लिए असी रहत काणी के स्वामन वाल आरहत की प्रदेशनात्म के लिए औं रहत काणी के स्वामन परिवालनाओं के
स्वामन स्वास कि एते । मलियान ने रहत उपनान और काम परिवालनाओं सभावित अवस्ता के लिए मेशरा एपेक्स notionerus

अत ने मैं बार्ड के सभी संदरयां हमारे हित्यारकों के प्रति उनके सर्व्यं। क्तव्रता व्यक्त करना बाहुगा। इसके अलागा मैं अग्रिक परित्र के यो दाओं जैसे कि विकिताको खारूब वेखनल कामकताओं नगर निकामी के कमेपारियों सन्त और चुलिस के साथ-साथ आवश्यक तवाओं सं जुठ अन्य लोगों के प्रवासी के प्रति विनास है। में भारत सरकार वारत सरकार के अन्य मंत्रालया और विनास दिवास संस्थान वैका भारत के नियनक और महालख्य परीक्षक (शीएडएस)) केशनिक त्या परीसकी तागत ताजा परीसको अगर सिन्धानिक त्यागरीसको से हृदय से प्राप्त तहचाग के लिए भी जेनको धन्वजर करता हूँ। व कपनी के सभी स्तरी पर सभी कमधारियों की प्रतिबद्धना और कड़ी महनत के साथ किए गए उनके अच्छे कामों के लिए मी पूरी निष्टः ^{करा}रक्त जनकी प्रशास करता है जिसने कपनी के लिए एक आर सफल वर्ष प्रदान करने में सहायता का है।

तिथि 29092020 स्थान नई दित्ती

एस. के बौधरी अध्यक्ष और प्रवध निदेशक

(यह 44नों वार्षिक आम बैतक की प्रक्रिया के रिकार्ट के उददेश्य से नहीं है)



पजीकृत कार्यालयः शी-४, डिसिन्द्रक्ट स्टर शास्त्र नई दिल्ली-110017, फानि +91-11-29565666 फेर्स्स +91-11-26522000/26854000 ई-मंतः inlo@ircon org: वेबसाइट www.ircon org: कार्पोरट प्रहागान सरखा: L45203DI.1976GO1008171























Economic indicators move the needle on recovery

Delhi emissions, power and freight numbers show economy may be shaking off the slump

SACHN P MAMPATTA, SHINE JACOB & KAICHNA KANT

Mumbai/Delhi, 28 September

The economy is showing increasing signs of sputtering to life, with many weekly economic indicators recording higher numbers than in 2019.

Analysts across the world are looking at such indicators to get a handle of the on-ground situation, even as lockdowns kicked into effect in multiple countries. A lot of the broader macroeconomic indicators like gross domestic product are released with a lag.

Business Standard tracks a set of high-frequency indicators on a weckly basis. These include emission levels, power generation, and traffic congestion in key cities. All the data is as of September 27. Google's mobility data is also included, albeit released with a lag. The latest Google data is as of September 21.

Power generation numbers are around 5 per cent higher than they werein 2019 during the same period. They had dropped by almost 30 per cent at the peak of lockdown. Numbershave been higher than 2019 for the most part of September.

The Indian Railways carried a higher quantity of goods for the seven days ended Sunday than over the same period last year. The earnings from carrying goods is also higher than last year's. Numbers have been consistently higher than 2019 freight data in recent releases The latest week's data shows 15 per cent more goods being carried than earlier.

Search engine giant Google collates location data. This is used to create a picture of the visits to various categories of places, including workplaces. Workplace visits are around 70 per cent of normal. Some of the other categories bear data of an earlier period because of the methodology changes under implementation a Google, The amount of time spent at home, too, shows an upward trend.

Business Standard tracks emis-

sions of nitrogen dioxide (NO2). NO2 is one of a group of gases called nitrogen oxides (NOx). While all of these gases are harmful to human health and the environment, NO2 is of greater concern. NO2 primarily gets in the air from the burning of fuel. NO2 forms from emissions from cars, trucks and buses, power plants, and off-road equipment.



WORKPLACE VISITS AT AROUND The financial capital of Mumbai **70 PER CENT OF NORMAL TIMES** continues to see emissions far below

last year."s. The latest levels are 93 per cent below the same period last year. Retail & recreation — Grocery & pharmacy -- Parks - Transit stations — Workplaces — Residential Delhi shows a different trend, NO2 13.43 levels have exceeded 2019 levels -31.14 They are now about a fifth higher -40 The traffic data from global location technology firm TomTom International also shows a difference in activity between the two cities. Murabai traffic is 33 per cent

Note: Google has suspended up dates for some categories over methodology improvements currently in progress. Chart shows visits to places by categorywhere available. The percentage change is compared to a baseline value for the same day of the week, calculated on a metable short for units of the same day of the week, calculated on a metable short future the Seminary for the part of the same for the same day of the week. below last year's numbers. New below 2015's. Both cities have been on a median basis during the 5-week period Jan 3-Feb 6, 2020. The showing marked improvement in



(quantity) (value)

0

-40

_-120

-33

Sep 27,'20

Note: Shovas change based on weighted

Freight loading


TRAFFIC INCHING

Jan 5,'20

HIGHER IN BOTH CITIES

congestion level from 2019)

(% difference in weekly



Note: Power generation based on reporting day data (million units, seven-day rolling average) Source: National Load Despatch Centre

MUMBALEMISSIONS DELHI EMISSIONS ARE ARE 93 PER CENT

NEARLY 22 PER CENT HIGHER THAN IN 2019 60 30.75

23.42 0 39.76 120 1.28 19.82

BELOW 2019 LEVELS

which say none are marked as zero. Levels are measured in micrograms per cubic metre of air. Charttitle refers to decline in seven—day rolling average levels, Source: CPC

BPCL may sell 7.3% treasury stock in bulk deal New defence acquisition policy

New Delhi, 28 September

The management of Bharat Petroleum Corporation (BPCL) on Monday said that 2 per cent of its treasury stock will be transferred to a separate trust, while the remaining 7.33 per cent is likely to be sold in a bulk deal.

"We have 9.33 per cent treasury stock and 2 per cent of it will be transferred to an ESPS (employee stock purchase scheme) trust. A decision on the remaining 7.33 per cent is yet to be taken. The decision will be part of the RFP (request for propos al) that will be out within 15 days after the expressions of interest (EoIs) are received for disinvestment," said N Vijayagopal, director (finance) of the company.
As of now, the last date to submit EoIs

is September 30, and hence, RFP is expected to be ready by October 15.

The company added that since the total stake is below 10 per cent, an offer for sale (OFS) is not possible. So, it is expected to be a block or bulk deal. Going by the cur-



rent market cap of ₹83.451.15 crore, 7.33 per cent stake in BPCL is expected to be valued around ₹6.117 crore, BPCL is of the opinion that its divestment process may be over during the current financial year. The Centre owns 52.98 per cent in the company, which is valued at around ₹44,212 crore based on the current market cap.

indicated its interest to sell the remaining stake in Bharat Oman Refineries (BORL) In Madhya Pradesh to BPCL. BORL became a subsidiary of BPCL only on March 22 this year. Before that, it was a 50:50 joint venture between BPCL and Oman. At present, BPCL owns 63,38 per cent in BORL, while the remaining stake is owned by OQ, which was previously known as Oman Oil Company (OOC).

"We have just opened a dialogue with Oman. Both the parties are interested. Since it is a commissioned deal, we will not be able to set a timeline to it." added Vijayagopal. On stake sale in Numaligarh refinery, the company added a consortium of Oil India and Engineers India has shown interest, while the Assam govern ment also wants to pick some stake. A deal in this regard is expected to be over before the divestment of government stake in BPCL. The company said that its petro sales are almost at pre-Covid levels. On the other hand, diesel sales are still 8-9 per cent below last year's levels.

POSSESSION NOTICE

The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L6592DL2005PLC136029) under the SecuritIsation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interes Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read wi Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued De calling upon the Borrower(s) BINA MALU, GYAN CHAND JAIN AND VARBHAY JAIN JAIN AND VAIBHAV JAIN to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.30,56,527/- (Rupees Thirty Lakh Fifty Six Thousand Five Hundred ity Seven Only) against Loan Account No HHLNOI00371484 as or 1.2020 and interest there on within 60 days from the date of receipt of the

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby giver to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taker symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of theSecurity Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 26.09.2020 The Borrower (s) in particular and the public in general is hereby caudioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Re.3.0,56,527; (Rupees Thitty Lakh Fifty Six Thousand Five Hundred Twenty Seven Only) as on 24.01.2020 and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) o Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO.-1301 (2BHK) HAVING SUPER AREA 1060 SQ. FT.. ON 13th FLOOR, IN JAZZ TOWER OF THE RESIDENTIAL COMPLEX KNOWN AS RHYTHM CCOUNTY SITUATED ON PLOT NO.GH-16E, SECTOR-1, GREATER NOIDA WEST GAUTAMBUDH NAGAR-201303, UTTAR PRADESH ALONG WITH Sd/

ate : 26.09.2020

Date: 28th September 2020

Authorized Office INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interes and Reconstruction of Prinaria. Assets and Enforcement of Sectini Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 is sued Demand Notice dated 30.01.2020 calling toon the Borrower(s) GURDEEP SINGH AND RAKHYINDER KAUR to repay the amount mentioned in the Notice being Re.29,77,205/- (Rupees Twenty Nine Lakh Seventy Seven Thousand Two Hundred Five Only) against Loan Account No.HHLNOI00396430 as or 28.01.2020 and Interest there on within 60 days from the date of receipt of the

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby giver to the Borrower (s) and the public in general that the urdersigned has taker symbolic possession of the property described herein below in exercise o powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of theSecurity Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 26.09.2020 The Borrower (s) In particular and the public in general is "ereby ceutioned no to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of the Rez.97,7205/- (Rupees Twenty Nine Lakh Sevent Seven Thousand Two Hundred Five Only) as on 28.01.2020 and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secure

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO.-1902 (28HK) HAVING SUPER AREA 1969 SQ. FT. ON 10th FLOOR
IN JAZZ TOWER OF THE RESIDENTIAL COMPLEX KNOWN AS RHYTHM
CCOUNTY SITUATED ON PLOT NO.6H-16E, SECTOR-1, GREATER NOIDA
WEST, GAUTAMBUDH NAGAR-201303, UTTAR PRADESH ALONG WITH

Date: 26.09.2020 Place : GREATER NOIDA INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

Authorized Office

to come into force from Oct 1

New Delhi, 28 September

Defence Minister Rajnath Singh on Monday unveiled the new Defence Acquisition Procedure of 2()2() (DAP 2()2()), which will govern the procurement of defence equipment from the capital budget. It will supersede the Defence Procurement Procedure of 2016 from October 1.

Taking its cue from the prime minister's Atmanirbhar Abhiyan (self-reliance campaign), DAP2020 reserves several procurement categories for indigenous firms. "The categories of Buy (Indian designed, developed and manufactured), Make I, Make II... and SP model will be exclusively reserved for Indian vendors...," stated the MoD on Monday.

DAP 2020 defines an "Indian vendor as a company that is owned and controlled by resident Indian citizens, with foreign direct investment (FDI) not more than 49 per cent.

Thenewpolicy introduces a significant new procurement category called "Buy (Global–Manufacturein India)." This stipulates indigenisation of at least 50 per cent of the overall contract value of a foreign purchase — for example fighter aircraft bought with the intention of subsequently building it in India with technology transfer. Meeting the difficult indigenisation regulrement would force the vendor to build the equipment in India, rather than supply most of it ready-built from abroad.

This category also encourages vendors to set up facilities in India to manufacture spares and assemblies for the basic equipment, and to set up maintenance, repair, and overhaul (MRO) facilities. With the FDI cap recently raised to 74 per cent, the foreign vendor could do this through a joint venture (JV) firm in India

The new procedure promotes greater indigenous content in arms and equipment of the military procures, including equipment manufactured in India under licence. In most acquisition categories, DAP-2020 stipulates 10 per cent higher



Defence Minister Rajnath Singh releases the New Defence Acquisition Procedure at the Defence Acquisition Council meeting in New Delhi

indigenisation than DPP 2016

For the contentious business of measuring indigenous content, DAP 2020 has instituted a simple benchmark. 'Indigenous content will now be calculated on 'Base Contract Price', that is Total Contract Price, less taxes and duties. stated the MoD. The "Import embargo list" of 101 items that the government promulgated last month has been specifically incorporated Into DAP 2020.

The new policy seeks to curb the long-running equipment trials the military carries out on equipment offered for pro curement. "DAP 2020 emphasises the need to conduct trials with an objective to nurture competition based on the principles of transparency, falmess and equal opportunities to all and not as a process of elimination," stated the MoD.

There are also important changes in the "Make" procedure, under which the MoD reimburses Indian vendors a percentage of the cost they incur on developing equipment. The Make-1 procedure now incorporates a limit per vendor of \$250 crore and reimburses only 70 per cent of the development cost, as compared to 90 per cent in DPP 2016. Under the Make II procedure, defence companies themselves fund the development

of equipment to offer the military.

DAP2020 incorporates a new Make III procedure in which indigenous firms

manufacture equipment, platforms or spares for import substitution.

DAP 2020 features important changes in the offset guidelines, which under current norms, require vendors who win contracts worth over ₹2,000 crore to ploughback 30 per cent of the contract value into designated defence R&D, manufacturing and services. The new policy exempts vendors from offset liability in contract proces ed under the government-to-government route, as was the Rafale purchase or most contracts concluded with Russia. Nor will offsets be imposed on single-vendor purchases.

Under the new offset policy, "preference will be given to manufacture of complete defence products overcomponents". states the MoD. In addition, multipliers have been introduced to direct offsets to chosen sectors, e.g. micro, small, and medium enterprises (MSMEs).

The new procedure hasbeen drawn up by a review committee headed by the acquisition chief of the Ministry of Defence (MoD), Apurva Chandra. Reacting to the new policy, the Confederation of Indian Industry stated: "DAP 2020 is expected to provide a major boost to the Indian industry... It mandates the MOD to engage with

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, **COURT NOVIAT NEW DELHI**

IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION OF HARITA LIMITED. HARITA PRIVATE LIMITED, HARITA CHEEMA PRIVATE LIMITED, HARITA FINANCIAL SERVICES LIMITED. HARITA SEATINGS SERVICES LIMITED WITH MINDA INDUSTRIES LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND

Minda Industries Limited (CIN: L74899DL1992PLC050333) a company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at B-64/1, Wazirpur Industrial Area, New Delhi - 110052.

... Petitioner Company /Tiransferee Company

ADVERTISEMENT OF PETITION

A petition under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 for obtaining the sanction of the National Company Law Tribunal, Court No VI, New Delhi, to a Scheme of Amalgamation of Harita Limited, Harita Venu Private Limited, Harlta Cheema Private Limited, Harita Financial Services Limited, Harita Seatings Services Limited with Minda Industries Limited and their respective shareholders and creditors was presented by the Petitioner Company before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Court No VI, New Delhi and the same was admitted on the 22nd day of January, 2020 and that the said petition is fixed for hearing before the National Company Law Tribunal, Court No VI, New Delhi on the 16th day of November, 2020. Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send notice of his/her intention signed by him/her or their advocate along with their name and address to the Advocates for the Petitioner Company so as to reach the Advocate of Petitioner Company not later than two days before the date fixed for hearing of the Petition. If the said person seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or an affidavit shall be furnished with such Notice. A copy of the Company Petition in CAA-17 (ND) / 2020 will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of prescribed charges for the same

Mr Hirak Mukhopadhyay

Counsel for Petitioner Company Max Towers, 7th& 8th Floors, Sector 16-B, Noida Gautam Buddh Nagar 20130 e-mail: hirak.mukhopadhyay@khaitanco.com

Business Standard DELHI EDITION

Editor : Styamal Majumdar

RNI NO. 57376/1994

Ph, 011-23720202, Fax:+91-11-23720201 For Subscription and Circulation enquiries please contact: Ms. Mansi Singh Head-Customer Relations Business Standard Private Limited. 48 U/3, Bullding H,Paragon Centre, (Bill C enturion, RB.Marg. Mombai - 400013 E-mall:subs.bs@bsmailin "or sms, SUB 85 to 57007"

DISCLAIMER News reports and featur DISCLAIMER News reperts and feature artillate, in Ruphiess Standardseak to present an unblasted picture of developments in the nurskets. The corporate would and the government. Actual cevelopments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standards control and knowledge. Business Standards control and knowledge. Business Standards does not take any responsibility for investment of business decisions taxen by readers on the basis of reports and a ricles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement.

Business Standard does not associate itself with as stand by the contents of any of the advertisements accapted in good Laths and published by IE. Any claim related to the advertisements standard be directed to the advertisements accapted in good Laths and published by IE. Any claim related to the advertisements standard be directed to the advertisements accapted in good Laths and published by IE. Any claim related to the advertisements standard by the content of the supering publication, reproduction, transmission or redissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of Mrs Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unaukhnised act by any person-fiegal entity shall involve evil and ciminal by by left.

No Air Surcharge

IIM-A best Indian B-school in FT rankings; dethrones IIM-C

SPIIMK GEDULS AS TUE only private business school at 36th position

Ahmedabad, 28 September

The Indian Institute of Management-Ahmedabad (IIM-A) has been ranked the bestbusinessschool (B-school) in India for its two-year masters in business administration (MBA) programme in the Financial TimesMastersin Management (MiM) Rankings 2020.

Five B-schools from India made it to the top 100. While IIM -A climbed one spot to 20th, IIM-Bangalore (IIM-B) and IIM-Udaipur also improved their performance, even as IIM-Calcutta (IIM-C) - ranked the best B-School in India in last year's rankings - fell four

spots to 21st.
Atthe36thposition, Bharatiya Vidya Bhavan's SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) became the only privately run Indian B-School in the top 50.

Sharingthe36th position with SPJIMR was IIM-B, which improved its position from 44th ranklast year while IIM-Udaipur climbed four places from 76th last year. Around 114 programmes took partin the ranking process in 2020, up from 111 lastyear. Tobe eligible for the rankings, B-schools must have full-time,



TOP B-SCHOOLS IN INDIA 5 B-schools made it to top 100

IIM-Ahmedabad 19 21 20 20 IIM-Calcutta 23 17 21 20 SPJIMR 36 26 44 IIM-Bangalore 36 35 IIM-Udaipur ource: FT MiM Rankings 2020

cohort-based programmes with a minimum of 30 graduates each year. B-schools must be accredited by either AACSB or Equis, with courses typically of one or two years in length and must be directed at students with little or no work experience. Commenting on the rankings, IIM-C Director AnjuSethsaid: "In linewith our vision of global

eminence, our continuing endeavour is to further promote curricular relevance. international engagement, and diversity for a dynamic learning experience that positions our students as global leaders. According to IIM-C, it had an

advantageoveritscompetitorsastheonly B-school to be a part of the CEMS. The Global Alliance in Management Education, or CEMS, is a cooperation of leading business schools and universities

with multinational companies and NGOs. SPJIMRDean Ranjan Banerjee said the B-s chool followed its own path withcurriculum relevance, high degree of industry integration, and strong focus on value education and experiential learning settingSPIIMRanart

"TheFTranking places alot of emphasis on a lumniper formance inindustry, and is thus a validation of our approach. We will continue to learn innovate and get better," said Banerjee.